




info@srghousing.com 

www.srghousing.com 

Date: April 29, 2026

**To,
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Mumbai-400051
Scrip Symbol- SRGHFL**

**To,
BSE Limited
1st Floor, P.J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001
Scrip Code- 534680**

Subject: - Newspaper Publications - Intimation regarding Dispatch of the Notice of Postal Ballot

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulations 30 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of newspaper clippings of advertisement published on April 29, 2026, in the following newspapers, intimating dispatch of Notice of the Postal Ballot and Remote e-Voting Information:

- Financial Express (Delhi Edition)
- Nafa Nuksan - Regional Newspaper

You are requested to take note of the same

Thanking you,

With Regards

For SRG Housing Finance Limited

**Divya Kothari
Company Secretary
M No A57307**

R.O.: 321 S.M. Lodha Complex, Near Shastri Circle, Udaipur - 313001, Rajasthan, India. | 0294-2412609

H.O.: Plot No. 12, Opposite Paras JK Hospital, Shobhagpura, Udaipur - 313001, Rajasthan, India. | 0294-2561882

C.O.: 307, 3rd Floor, Hubtown Solaris, N.S. Phadke Marg, Near East West Flyover, Andheri (E), Mumbai - 400069, Maharashtra. | 022-62215307

CIN No.: L65922RJ1999PLC015440

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR PAL GARDEN PROJECT OF PAL INFRASTRUCTURE AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

OPERATING IN REAL ESTATE DEVELOPMENT SECTOR AT SECTOR-89, FARIDABAD (Under sub-regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Code of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS	PAL INFRASTRUCTURE AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED- PAL GARDEN PROJECT CIN: U70900DL2006PTC149560
1. Name of the Corporate Debtor along with PAN & CIN/LLP No.	18-45, Shakti Apartments Sector 9, Rohini, New Delhi, Delhi, India, 110005
2. Address of the registered office	https://insolvencyandbankruptcy.in/cir/pal-infrastructure-developers-private-limited/
3. URL of website	Village Tikkiwal, Sector-89, Faridabad, Haryana- 121002
4. Details of place where majority of fixed assets are located	Total Plot Area- Approx. 7.2 Acres Approx. 10 Towers civil structure partially constructed 1575 Sq. Ft. Flat - 3 BHK 1250 Sq. Ft. - 2 BHK Total No. of Apartments: 600 Apartments A to F (G-14) i.e. 60 Flats per Tower G to J (G+18) i.e. 76 Flats per Tower
5. Installed capacity of main products/ services/ FSI	Since the CIR commencement in Sep 2019, the company has not transacted any business.
6. Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	Email at - palinfra@aaainsolvency.com or https://insolvencyandbankruptcy.in/cir/pal-infrastructure-developers-private-limited/
7. Number of employees/ workmen	0
8. Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL	https://insolvencyandbankruptcy.in/cir/pal-infrastructure-developers-private-limited/ or email at - palinfra@aaainsolvency.com
9. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at URL	20-05-2026
10. Last date for receipt of expression of interest	30-05-2026
11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	04-06-2026
12. Last date for submission of objections to provisional list	14-06-2026
13. Date of issue of final list of prospective resolution applicants	19-06-2026
14. Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	19-07-2026
15. Last date for submission of resolution plans	palinfra@aaainsolvency.com
16. Process email id to submit EOI	

Ganga Ram Agarwal
Resolution Professional of Pal Infrastructure and Developers Private Limited
Reg. No.: IRRB/IRPA-002/IRP-N00874/2019-2020/12777
AFA valid till: 31.12.2026 64, Okhla Estate, Phase-III, National Capital Territory of Delhi, 110020

Date: 29/04/2026
Place: New Delhi

Reg. off.: 410-412, 18/12, 4th Floor, W.E.A. Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005

CSL Finance Limited

Corp off.: 716-717, 7th Floor, Tower B, World Trade Tower, Sector 16, Noida, 201301, Uttar Pradesh, Ph: +91 120 4290650/52/53/54/55, Email: info@cslfinance.in, Legal@cslfinance.in, Web: www.cslfinance.in CIN: L74899DL1992PLC051462

POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY ((Appendix IV) Rule 8(1))

Whereas the undersigned being the authorized officer of the **CSL FINANCE LTD.** (hereinafter referred as Company) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice to the Borrower/Co-Borrower/Guarantor mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower/Co-Borrower/Guarantor having failed to repay the demanded amount, accordingly notice is hereby given to the Borrower/Co-Borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned on behalf of company has taken physical possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said act read with rule 8(1) of the said rules.

The Borrower(s)/Co-Borrower(s)/Guarantor(s) in particular and the public in general is/are cautioned not to deal with the below mentioned property and any dealings with the said property will be subject to the first charge of the Company for the amount as mentioned herein below with future interest thereon.

Name of Borrower/Co-Borrower/ Guarantor / Loan No.	Demand Notice dated and Amount (In Rs.)	Date of Physical Possession
LAN: SMELAPPAR01000437 Borrower / Security Provider: Vijay, Co-Borrower- Ajay, Co-Borrower- Arjit Saroj Address (All At) H. No. 14, Jhutiya Mohalla, Village Barauli(149), Faridabad, Haryana, 121102	Rs. 5,89,405/- (Rupees Five Lacs Eighty Nine Thousand and Four Hundred Five Only) as on 08.10.2025, plus, future interest, penal charges.	27.04.2026

Description of Secured Asset (Immovable Property) Details Of Immovable Property 1: All that piece and parcel of immovable Plot Area Measuring 200 Sq Yards. Comprised In Khevat/Khata No.1054/1068 Muskil No.92 Kila No.16(8-0) Muskil No.93 Kila No.11/4 (1-17) 20/2(5-10) Kila 3 Rakha 15 Kanal 7 Marla Share No.92/286 that is Rakha 200 Sq Yards. Waka Moja Badoli Tehsil and District Palwal Haryana-121102. Along With 100% Undivided, Indivisible, and Impartible Ownership Rights/share in the Said Plot of Land, Together with All Rights, Easements, Privileges, Appurtenances Whatsoever Belonging to or Enjoyed Therewith or Appurtenant Thereof, With Fixtures, Fittings Electrical & Sanitary Fittings And Necessary Amenities. **Boundaries and Dimensions of the Immovable Property are as Under:- As Per Title Documents:** North- Other's Property, South- Road 15 Ft. Wide, East- Property of Giri Raj Sharma, West- Property of Suresh Sharma. **As Per Actual Technical Valuation Report:** North-Other's Property, South- Road 15 Ft. Wide, East- Property of Giri Raj Sharma, West- Property of Suresh Sharma.

Date : 27.04.2026 Sd/- Authorized Officer, CSL Finance Ltd.
Place : Faridabad (Haryana)

ADITYA BIRLA CAPITAL LOANS INVESTMENTS INSURANCE PAYMENTS

Registered Office : Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat-362266, Branch Address at : Plot No-17, Vijaya Building, 2nd Floor, Barakhamba Road, New-Delhi-110001

***APPENDIX-IV-A* [See provision to Rule 8(1) of Security Interest Enforcement Rules, 2002] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY**

On account of the amalgamation between Aditya Birla Finance Limited and Aditya Birla Capital Limited vide the Scheme of Amalgamation dated 11.03.2024 duly recorded in the Order passed by the National Company Law Tribunal - Ahmedabad on 24.03.2025, all SARFAESI actions initiated by Aditya Birla Finance Limited in relation to the Secured Assets mentioned herein below stands transferred to Aditya Birla Capital Limited by virtue of Section 230 and 232 of Companies Act, 2013. Accordingly, this notice is being issued and published by Aditya Birla Capital Limited.

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (54 of 2002). Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) i.e., Mr. Manish Chandra Jain, Mrs. Rijsita Jain, and Mr. Aryan Jain, having Loan A/c no. ABND_LAP00000773234 that the below described immovable property mortgaged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Aditya Birla Capital Limited, the mortgage property will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" basis on **05.06.2026** for recovery of Rs. 1,01,85,193.70/- (Rupees One Crore One Lakh Sixty-Five Thousand One Hundred Ninety-Three and Paise Seventy Only), due as on date 04.08.2025 and further interest and other expenses thereon till the date of realization of complete Outstanding amount due to the Secured Creditor from above stated Borrowers/Co-Borrowers.

The Reserve Price will be Rs. 1,00,03,500/- (Rupees One Crore Three Thousand Five Hundred Only) for Property/.. "Built Up Entire Second Floor without terrace roof rights measuring 100 sq. yds. out of freehold property bearing No. 28/50, along with proportionate undivided, indivisible and impartible ownership rights in the undermeath land measuring 100 sq. yds. with super structure situated in the abadi of West Patel Nagar, New Delhi, owned by Manish Chandra Jain, and bounded as follows that is to say: North : Back side Road 40ft, East: Property No. 28/49, South : Entry/Road 25ft, West : Street 12ft". The Earnest Money Deposit will be Rs. 10,00,350/- (Rupees Ten Lakhs Three Hundred and Fifty Only).

Short description of the immovable property:
All That Part & Parcel of Properties bearing no.: "Built Up Entire Second Floor without terrace roof rights measuring 100 sq. yds. out of freehold property bearing No. 28/50, along with proportionate undivided, indivisible and impartible ownership rights in the undermeath land measuring 100 sq. yds. with super structure situated in the abadi of West Patel Nagar, New Delhi, owned by Manish Chandra Jain, and bounded as follows that is to say: North: Back side Road 40 ft, East: Property No. 28/49, South : Entry/Road 25ft, West: Street 12ft", Important Note, The earlier sale notice issued dated 31.03.2026 stands withdrawn/cancelled due to certain discrepancies. This notice shall be treated as the fresh Sale Notice for First Auction, issued in compliance with applicable provisions of the SARFAESI Act and rules. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Secured Creditor's website i.e. <https://mortgagefinance.adityabirlacapital.com/Pages/IndividualProperties-for-Auction-under-SARFAESI-Act.aspx> or <https://sarfaesi.auctiontiger.net>

DATE: 29.04.2026, PLACE: Delhi

Authorized Officer, (Aditya Birla Capital Limited)

Form No. INC-26
(Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)
Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another

Before the Central Government
Northern Region

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of AMAZING PRODUCTS PRIVATE LIMITED having its registered office at 205, LOCAL SHOPPING COMPLEX, POCKET-B, PHASE-III ASHOK VIHAR, DELHI, 110052, Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 29th August, 2025 to enable the company to change its Registered Office from "NCT of Delhi" to "State of Haryana".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing inventory complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address "THE REGIONAL DIRECTOR, B-2 WING, 2ND FLOOR, PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI-110003", within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below.

"205, LOCAL SHOPPING COMPLEX, POCKET-B, PHASE-III ASHOK VIHAR, DELHI, India, 110052"

For and on behalf of the Applicant.
Signed:
SUMEET KALHAN
Director
DIN: 07392246
Date: 29/08/2025
Place: Delhi.

PUBLIC NOTICE
[Under Section 102 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("IBC")]
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF
MR. SHIV KARAN SINGH BAGGA

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, Principal Bench - New Delhi, in IA (IBC) 477/PB/2026 in CP (IB) No. 468/PB/2025 filed by Mr. Shiv Karan Singh Bagga u/s 94 of IBC, has ordered the commencement of the insolvency resolution process of Mr. Shiv Karan Singh Bagga u/s 100 of IBC vide its order dated 22.04.2026 uploaded on NCLT's site on 22.04.2026, who is the personal guarantor to M/s. Comex Infotech Private Limited (CO). Mr. Sudhir Kumar Agarwal was appointed as the Resolution Professional by the Hon'ble AA order dated 09.12.2025.

Accordingly, the creditors of Mr. Shiv Karan Singh Bagga are hereby invited to submit their claims with proof in prescribed Form B on or before 19.05.2026 to the Resolution Professional at the address, 415 Naurang, House, 21, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 or through email at skao03@gmail.com.

The creditors may submit details of their claims through electronic means, or by hand, or by registered post, or by speed post, or by courier.

DETAILS OF PERSONAL GUARANTOR MR. SHIV KARAN SINGH BAGGA	
1. Name of Personal Guarantor	Mr. Shiv Karan Singh Bagga
2. Address of Personal Guarantor	M-104, Greater Kailash Part-I, New Delhi-110048
3. Insolvency commencement date	22.04.2026
4. Estimated date of closure of insolvency resolution process	19.10.2026
5. Last date for submission of Claims	19.05.2026

DETAILS OF THE RESOLUTION PROFESSIONAL

6. Name and registration number of the insolvency professional acting as resolution professional	Mr. Sudhir Kumar Agarwal (IBBI/PA-001/IP-P00195/2017-2018/10374 AFA Valid Till: 30.06.2026 (Appointed vide AA order dated 09.12.2025))
7. Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	Add: 415 Naurang, House, 21, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001 Email: skao03@gmail.com
8. Address and e-mail to be used for correspondence with the resolution professional	Add: 415 Naurang, House, 21, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001 Email: skao03@gmail.com

Submission of false or misleading claims shall attract penalties in accordance with the provisions of the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 or any other applicable Laws.

Date: 29.04.2026 Sudhir Kumar Agarwal
Resolution Professional
Place: New Delhi (IBBI/PA-001/IP-P00195/2017-2018/10374)

ADITYA BIRLA CAPITAL PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

Aditya Birla Housing Finance Ltd.

Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat 362266
Branch Office: Aditya Birla Housing Finance Limited No N/17, 1st Floor, Vijaya Building Barakhamba Road, New Delhi - 110001

1. ABHFL: Authorized Officer Amandeep Taneja : 9711246064
2. Auction Service Provider (ASP): - M/S e-Procurement Technologies Pvt. Ltd. (AuctionTiger) Mr. Ram Sharma - Contact No. 800023297 & 9265562819

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Asset(s) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Aditya Birla Housing Finance Limited/Secured Creditor, upon classification of ailed loans as Non Performing Asset (NPA) on 01-08-2025, issued a notice under Section 13(2) on 18-08-2025 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) (hereinafter referred to as "the said Act") calling upon you, the Borrower(s) to discharge the liabilities in full within a statutory period of 60 (Sixty) days, amounting to INR 1970846/- (Rupees Nineteen Lakhs Seventy Thousand Eight Hundred Forty Six Only) the Constructive/Physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Aditya Birla Housing Finance Limited/Secured Creditor on 11-04-2026, will be put to sale by auction on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 05-06-2026, for recovery INR 1970846/- (Rupees Nineteen Lakhs Seventy Thousand Eight Hundred Forty Six Only) and further interest and other expenses thereon till the date of realization, due to Aditya Birla Housing Finance Limited/Secured Creditor from the Borrower(s) & Guarantor(s) namely SONU & RENU SHARMA.

The reserve price will be INR 2226960/- (Rupees Twenty Two Lakhs Twenty Six Thousand Nine Hundred Sixty Only) and the Earnest Money Deposit (EMD) will be INR 222696/- (Rupees Two Lakhs Twenty Two Thousand Six Hundred Ninety Six Only) The last date of deposit of EMD is 04-06-2026. The date for inspection of the said property is fixed on 03-06-2026 between 11:00 am to 04:00 pm.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

ALL THAT PIECE AND PARCEL OF HOUSE NO. 161, WARD NO. 03, LAND MEASURING 3.30 MARLA I.E., 100 SQ. YRDS. OUT OF KHEWAT NO. 33M, KHATA NO. 34, MU NO. 107, KILA NO. 92/12(0-15) & MUST NO. 107, KILLA NO. 112(6-2), NEAR KHONTA MANDIR KRISHNA COLONY PALWAL, BUS STAND, PALWAL, FARIDABAD HARYANA, 121102 AND BOUNDED AS: EAST: 6 FT. WIDE STREET (YADRAM SHARMA), WEST: HOUSE OF MAHAVER PRASAD, NORTH: HOUSE OF CHUNNALL, SOUTH: HOUSE OF BALVEER

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Aditya Birla Housing Finance Limited/Secured Creditor's website i.e. <https://homefinance.adityabirlacapital.com/properties-for-auction-under-sarfaesi-act> or <https://sarfaesi.auctiontiger.net>

Date: 29-04-2026 Authorized Officer
Place: FARIDABAD Aditya Birla Housing Finance Limited

MISHKA EXIM LIMITED
CIN: L51909DL2014PC270810
Regd. Off. F-14, First Floor, Cross River Mall, CBD Ground, Shadara New Delhi-110032, email: mishkaxim@gmail.com

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2026
(Rs. In Lakhs, except per share data)

Sl. No.	Particulars	Standalone		Consolidated			
		Quarter Ended 31.03.2026 (Audited)	Year Ended 31.03.2026 (Audited)	Quarter Ended 31.03.2026 (Audited)	Quarter Ended 31.03.2026 (Audited)	Year Ended 31.03.2026 (Audited)	Quarter Ended 31.03.2026 (Audited)
1	Total Income from operations	352.42	2,263.03	158.04	352.42	2,271.87	158.05
2	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after finance costs but before Exceptional Items	92.34	263.02	19.35	91.70	263.84	17.42
3	Net Profit/(Loss) Before Tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	92.34	263.02	19.35	91.70	263.84	17.42
4	Net Profit/(Loss) after Tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	68.90	196.65	14.73	69.26	197.59	12.37
5	Total Comprehensive Income/(Loss) for the period [comprising of Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	68.90	203.24	14.73	69.26	215.59	12.37
6	Paid-up Equity share capital (Face value of Rs.10/- each)	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as per the audited balance sheet	568.52	568.52	365.28	974.10	974.10	758.83
8	Earning per Equity Share (FV Rs10/-per share) (not annualised)						
a)	Basic	0.48	1.36	0.10	0.48	1.37	0.09
b)	Diluted	0.48	1.36	0.10	0.48	1.37	0.09

Note:-
The above is an extract of detailed format of Quarterly/Annual financial Results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and on the company's website (www.mishkaxim.com).

For MISHKA EXIM LIMITED
Sd/-
RAJNEESH GUPTA
(MANAGING DIRECTOR)
DIN No.00132141

Place : Delhi
Date: 28/04/2026

SRG HOUSING FINANCE LIMITED

321, S.M. Lodha Complex, Near Shastri Circle, Udaipur (Raj) 313001
CIN: L65922RJ1999PLC015440; Website: www.srghousing.com;
Email : info@srghousing.com Phone No: 0294-2561882, 2412609

NOTICE OF POST BALLOT

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Sections 108, 110 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and in compliance with the applicable guidelines / circulars / rules issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") inter alia including General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020 and the latest being No. 03/2025 dated September 22, 2025, issued by MCA, read with other relevant circulars, issued from time to time, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, and other applicable laws and regulations, if any, including any statutory amendments, modifications, variations or re-enactments) thereto, for the time being in force, the following special business is proposed to be passed by the Members of SRG HOUSING FINANCE LIMITED by way of Postal Ballot through voting by electronic means ("remote e-voting") only.

Sl. No.	Type of Resolution	Description of Resolution
1	Special Resolution	To Approve the Increase in Borrowing Limits Under Section 180(1)(C) Of The Companies Act, 2013
2	Special Resolution	To Approve Creation of Charges on The Assets of the Company Under Section 180(1)(A) Of The Companies Act, 2013 To Secure The Borrowings Made To Be Made Under Section 180(1)(C) Of The Companies Act, 2013

The Company has completed dispatch of Notice through email on Monday, April 27, 2026 to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or its Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or with Depository(ies) Depository Participant(s) and whose names appear in the Register of Members or in the list of Beneficial owners of the Company provided by the Depositories as on Friday, April 17, 2026. E herein after referred to as the "Cut-Off Date".

A person who is not a member as on the Cut-Off Date should treat this Notice for information purposes only, physical copies of this Notice, along with the Postal Ballot Forms and pre-paid business envelopes, are not being sent to the Members. Accordingly, the communication of assent or dissent by Members eligible to vote shall be affected only through remote e-voting, i.e., by casting their votes electronically instead of submitting Postal Ballot Forms.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") as the agency to provide remote e-voting facility.

The Remote e-Voting facility will be available during the following period:
Commencement of Remote e-Voting: From 9:00 a.m. (IST) on Wednesday, April 29, 2026
End of Remote e-Voting: Till 5:00 p.m. (IST) on Thursday, May 28, 2026
The Remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. The remote e-voting module shall become inoperative upon expiry of the aforesaid period. Once a vote on a resolution has been cast by a member, such vote shall not be changed subsequently nor shall the Member be permitted to cast the vote again on that resolution.

All relevant material documents referred to in the Notice and the Explanatory Statement shall be available for inspection in electronic mode without any fee for the Members from the date of circulation of this notice until the last date of Remote e-voting i.e., Thursday, May 28, 2026. Members can inspect such documents by sending their request from their registered e-mail address to compliance@srghousing.com, mentioning their Name and Folio Number / DP ID & Client ID.

This Notice along with instruction for remote e-voting is available at the Company's website www.srghousing.com and the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at <https://www.evoting.nsdl.com>.

Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/mobile numbers, Permanent Account number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as name of the bank and branch details, bank account number, MICR Code, IFSC Code, etc.

For shares held in electronic form - to their depository participants (Dps).
For shares held in physical form - to the Company or its RTA with details such as Folio no., Name, scanned copy of share certificate/(front and back), PAN self-attested scanned copy of PAN card, AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to evoting@nsdl.com or info@srghousing.com.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Shiv Hari Jalan, Practising Company Secretary, as the Scrutinizer to scrutinize the postal ballot process through remote e-voting in fair and transparent manner. The Scrutinizer has consented to act as Scrutinizer for this postal ballot. The decision of the Scrutinizer on the validity of votes cast, the process of Postal Ballot, and the declaration of results shall be binding on the Company and the Members.

In accordance with Regulation 44(3) of the Listing Regulations, the result of the Postal Ballot along with the Scrutinizer's Report will be displayed on the Company's website www.srghousing.com and on the website of NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com> and shall be communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, within 2 (two) working days from the end of the e-voting period. In case of any queries/grievances pertaining to remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the "Download" section of www.evoting.nsdl.com or call on no.: 022-40867000 or contact Ms. Pallavi Mhatre, AP at their designated e-mail addresses: evoting@nsdl.com. And you may also contact Mrs. Divya Kothari, Company Secretary to address the grievances connected with remote e-voting at Registered Office, Tel. No. 0294-2561882, Email-id: info@srghousing.com. The Postal Address of NSDL is 3rd Floor, N.M. Narsara Chamber, Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra-400 051.

For SRG Housing Finance Limited
Date: 27.04.2026
Place: Udaipur
Sd/-
Divya Kothari
Company Secretary M.No. AG7307

NORTHERN RAILWAY

Applications are invited under scheme of "One Station One Product" for setting up:

A. Total Ten (10) Stall at: Delhi, Delhi Cantt., Delhi Ghazdara, Faridabad, Ghaziabad, Meerut City, Panipat, Pataudi Road, Subzi Mandi, Gurgaon Railway Stations.

B. Total forty three (43) Trolley at: Anand Vihar Terminal, Badli, Ballabhgarh, Baghpat Road, Baraut, Delhi Kishanganj, Delhi Sarai Rohilla, Faridabad New Town, Garhi Harsaru, Jakhhal, Jind, Muzaffarnagar, Julana, Narela, Khehra, Mansa, Meerut City, Nangloi, Narwana, Noli, Okhla, Palam, Shakurbasti, Shanti, Tapri, Tohana, Tughlakabad, Vivek Vihar, Asawati, Delhi Azadpur, Delhi Safdarjung, Deoband, Khatauli, Mangolpur, Modinagar, Meerut Cantt., Muradnagar, New Ghaziabad, Partapur, Sakoti Tanda, Sampla, Shivaji Bridge, Tilak Bridge Railway Stations.

- The period for setting up of stall/Trolley at Delhi Jnt., Kurukshetra, Subzi Mandi, Palwal, Gurgaon, & Meerut Cantt., Panipat, Narela, Badli Rohtak, Julana, Sampla Railway Stations per spell will be 90 days.
- Registration fee for NSG 1, 2, 3 stations will be charged @ rate of Rs. 2000 for each spell of thirty days and for NSG 4,5,6 (Delhi Kishanganj, Deoband, Badli, Okhla, Shanti, Tapri, Jind, Jakhhal, Tohana, Mansa, Narwana, Baghpat Road, Khehra, Nangloi, Muradnagar, Khatauli, Meerut Cantt., Julana, Sampla, Shivaji Bridge, Tilak Bridge, Ganaur, Badli, Subzi Mandi, Narela, Tughlakabad, Faridabad New Town, Ballabhgarh, Palam, Delhi Safdarjung, Partapur & Sakoti Tanda Railway Station registration fee will be charged @ rate of Rs. 1000 for each spell of thirty days.
- The following are the eligibility criteria for participant viz.
 - Holder of Artisans/Weaver ID card issued by Development Commissioner Handloom, or by the requisite State/Central Government Authority.
 - Individual artisans/weavers/craftsmen enrolled/registered with Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited (TRIFED)/National Handloom Development Corporation (NHDC)/Khadi/Village Industries Commission (KVIC)/associated with Social Organizations, State Govt. bodies and associated with registered micro enterprises on the Udyam Portal of the Ministry of MSME and NGOs etc.
 - Self Help Groups registered with PMEGP (Prime Minister's Employment Generation Programme).
 - Marginalized or weaker sections of society.
 - No separate logo shall be allowed.
- The applicant will have to submit an undertaking to the Station Superintendent indicating that no activity would be undertaken to adversely affect the train operations, passenger safety and image of the Railways.
- Applications should be addressed and can be submitted to Station Superintendent at station by the applicant till 15:00 hrs. of 07.05.2026, which will be opened on same day.
- Station Superintendent will make priority roster of all approved participants and priority will be established through a draw of lots conducted at the station in the presence of all approved applicants by the Station Manager/Sectional CMI and nominated Finance representative.
- The One Station One Product scheme shall be governed by Railway Board's Commercial Circular No. 12 of 2022 and 09 of 2023 respectively available at website: www.indianrailways.gov.in and URL: https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_comm/Comm_Cir_2022/OSOP%20Policy.pdf & https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_comm/Comm_Cir_2023/CC%20%2009%20of%202023.pdf. For any queries applicant may contact Station Superintendent or CMI of the respective stations. 1418/2026

Serving Customers With A Smile

TRUHOME FINANCE LIMITED (Formerly Shriram Housing Finance Ltd.)

Head Office: Level -3, Wockhardt Towers, East Wing C-2, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051
Tel: 1800 102 4345 ; Website: <http://www.truhomefinance.in>
Reg.Off.: Srinivasa Tower, 1st Floor, Door No. 5, Old No.11, 2nd Lane, Cenatoph Road, Alwarpet, Teynampet, Chennai-600018

APPENDIX-IV-A [SEE PROVISION TO RULE 9(1)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Truhome Finance Limited (Formerly Known As Shriram Housing Finance Limited). The symbolic possession of which has been taken by the Authorized Officer of Truhome Finance Limited, will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" basis in e-auction on dated 18-May-2026 between 11.00 a.m. to 1.00 p.m. for recovery of the balance due to The Truhome Finance Limited from the Borrowers And Guarantors, as mentioned in the table.

Details of Borrowers and Guarantors, amount due, Short Description of the Immovable property, reserve price and earnest money deposit and date of inspection are also given as:

Name of Borrowers/ Co-Borrowers/ Guarantors/Mortgagors	Amount of Recovery and date of Demand Notice	Reserve Price (Rs.) & Bid Increment	Date & Time of Auction	Contact Person Details - (AO and Disposal team)
Mr. Aman Verma S/o				

For Your Information

India's Top Destinations for Herbal & Medicinal Plant Exports (by % share):



- U.S. - 31.5%
 - Germany-13.5%
 - Italy - 7.5%
 - China - 4.2%
 - UAE - 3.5%
- (APEDA)
- Compiled by Nafanuksan Research

अमृत वन



विक्टर पर सिताओं को ले जाना फिर पर गूढ़ वन के लोहा है। सुदूर के प्रयास से जो विज्ञान ने मिला है, उसे भ्रमण के चरणों में लीला है, समाधान को कोई-न-कोई किण्वन अवस्था मिल जाती है।

- श्री कृष्ण

Thoughts of the time

The illusions of hope are apt to close one's eyes to the painful truth.

- Harry F. Banks

If your plan "A" doesn't work the Alphabet has 25 more letters. Stay Cool!

- Suresh Rathi

राजस्थानी कहावत

घर से नाणों खोटी तौ पारखू के करै?
घर का सिक्का ही खोटा तो पारखी क्या करै?

- बिगड़े हुए लड़के की लोग बदनामी करे तो इसमें असंगत कुछ भी नहीं।
- अयोग्य लड़का किसी भी काम में सफल न हो तो किसी दोग दिया जाए?

-श्री. विजय दान देवा
साभार : रूपारण्य संस्थान, बालेन्द्र

अब 10 करोड़ रुपये तक के पर्सनल लोन को मिलेगा कम जोखिम भार का लाभ



मुंबई @एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक ने पूंजी शुल्क पर अंतिम दिशानिर्देशों में पर्सनल ऋण जोखिम की सीमा को 7.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया। इसके बाद अब इतनी राशि तक के पर्सनल लोन कम जोखिम भार का लाभ उठा सकेंगे।

केंद्रीय बैंक ने जारी बयान -3 पर अंतिम निर्देश - मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत लोन जोखिम के लिए पूंजी शुल्क मानदंडों में कहा कि अक्टूबर में मौसमी जा रही होने के बाद उसे पर्सनल कार्डेटरपार्टी के अधिकतम कुल जोखिम सीमा को बढ़ाने के अनुरोध मिल थे, ताकि उन्हें नियामक खुदरा के रूप में वर्गीकृत किया जा सके।

इस सुझाव को स्वीकार करते हुए आरबीआई ने कहा, अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन, नियामक खुदरा के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र जोखिम राशि की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है।

संशोधित ढांचा एक अप्रैल, 2027 से लागू होगा और इसके तहत बड़े बिना रेटिंग वाले करपोरेट और एनबीएफपी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) जोखिम के लिए भी सीमा को पहले प्रस्तावित 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

राजस्थान की 900 बंद माइन्स को ऑपरेशनल बनाने के प्रयास हुए तेज

जयपुर@कार्यालय संवाददाता

राजस्थान सरकार ने खनिजों की नियमानुसार माइनिंग को बढ़ावा देने, अवैध माइनिंग पर रोक लगाने के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में 14,001 करोड़ रुपये के रेवेन्यू लक्ष्य को पूरा करने के लिए नॉन ऑपरेशनल माइन्स को पुनः शुरू करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। यह लक्ष्य पिछले वर्ष के 10,394 करोड़ रुपये से 39 परसेंट अधिक है। सरकार द्वारा हाल में माइनिंग सेक्टर को लेकर जारी किये गए दिशा-निर्देश से साफ है कि सरकार अब इस सेक्टर को लेकर सख्ती के मूड में है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल ही में हुए रिज्यू में अधिकारियों को निष्क्रिय माइनिंग एरिया की पहचान करने और योजनाबद्ध तरीके और ऑक्शन के माध्यम से उन्हें एक्टिव प्रॉडक्शन यूनिट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया गया है। राज्य में ऐसी लगभग 800-900 माइन्स हैं।

माइन्स विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि उनका विभाग मिनरल्स की माइनिंग, सीमा निर्धारण करने और मेजर एवं माइनर मिनरल्स के ऑक्शन के लिए प्लॉट और ब्लॉकों को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि ऑक्शन के बाद ऑपरेशनल बनाने में तेजी लाने के लिए ऑक्शन के लिए तैयार प्लॉट्स और ब्लॉकों को पहले से ही तैयार रखें। बंद माइन्स में उत्पादन फिर से शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। वैध माइनिंग को बढ़ावा देने के लिए, मिनरल की माइनिंग और ऑक्शन के लिए भूखंडों और ब्लॉकों की तैयारी की जानी चाहिए। ऑक्शन किए गए मिनरल ब्लॉक और भूखंडों को ऑपरेशनल बनाया जाना चाहिए।

सूत्रों ने बताया कि कुछ बंद ब्लॉकों में अवैध माइनिंग जारी है, जिससे रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। सरकार लीकेज को रोकने के लिए कड़ी निगरानी, स्पष्ट सीमाओं और सख्त एनफोर्समेंट पर प्राथमिकता से ध्यान दे रही है। इसके अलावा माइन्स विभाग के फील्ड अधिकारियों को उन माइनिंग पट्टों के बारे में स्पष्ट जानकारी मांगी गई है, जिनमें पिछले दो वर्षों में जीरो मिनरल डिस्पेंच दर्ज किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 16 अप्रैल, 2024 और 15 अप्रैल, 2026 के बीच कुछ माइनिंग लीज से किसी भी प्रकार का डिस्पेंच रिकॉर्ड नहीं किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी स्पष्ट रूप से बतावें कि जीरो डिस्पेंच की स्थिति किन कारणों से रही है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जानकारी और संबंधित डेटा एक निर्धारित फॉर्मेट में निश्चित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत की जाये।

माइनिंग सेक्टर को लेकर सरकार सख्ती के मूड में रेवेन्यू लक्ष्य 39 परसेंट बढ़ाया



माइनिंग सेक्टर के लिए 5,000 करोड़ की इंसेंटिव योजना

नई दिल्ली/एजेंसी। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में देश के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में माइनिंग सेक्टर में सुधार एवं माइन्स को ऑपरेशनल बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के इंसेंटिव की घोषणा की है। राज्यों द्वारा पूर्व वर्ष में किए गए इनीशिएटिव के मद्देनजर केंद्र सरकार स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस के तहत राज्य कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत प्रत्येक राज्य 550 करोड़ रुपये तक के इंसेंटिव का पात्र होगा। इस योजना के लिए माइन्स मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है। इसके लिए हाल ही में गाइडलाइन जारी कर दी गई है।

माइनिंग से राज्य सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन

वित्त वर्ष	राशि करोड़ रुपये
वर्ष 2017-18	4333
वर्ष 2018-19	5116
वर्ष 2019-20	4348
वर्ष 2020-21	4798
वर्ष 2021-22	6075
वर्ष 2022-23	6803
वर्ष 2023-24	7042
वर्ष 2024-25	8384
वर्ष 2025-26	9148

नेशनल • इंटरनेशनल

रियल्टी प्रोजेक्ट्स के लिए 2025-26 में जमीन अधिग्रहण मामूली घटक 2,994 एकड़ पर

नयी दिल्ली@एजेंसी

रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पिछले वित्त वर्ष में मामूली रूप से घटकर 2,994 एकड़ रहा। परामर्श कंपनी एनारॉक के अनुसार इसमें से लगभग आधी जमीन सूचीबद्ध कंपनियों ने अधिग्रहण किया। इन आंकड़ों में रियल एस्टेट कंपनियों और भूमि मालिकों के बीच सीधे खरीद और संयुक्त विकास समझौते (जेडीए) दोनों शामिल हैं। रियल एस्टेट सलाहकार एनारॉक ने सोमवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भूमि अधिग्रहण के आंकड़े जारी किए।

पिछले वित्त वर्ष के दौरान देश भर में रियल एस्टेट विकास के लिए कुल 2,994 एकड़ भूमि के 111 सौदे किए गए। इसके मुकाबले वित्त वर्ष



2024-25 में 3,071.14 एकड़ के 143 सौदे हुए थे। एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि इस अवधि में हर दो में से लगभग एक भूमि सौदा सूचीबद्ध रियल एस्टेट कंपनियों द्वारा किया गया। इन कंपनियों ने 1,433

एकड़ भूमि के लिए 54 सौदे किए। उन्होंने आगे कहा, पिछले कुछ वर्षों में भूमि अधिग्रहण तेजी से पूंजी-गहन और नियमों पर आधारित हो गया है। ऐसे में सूचीबद्ध डेवलपर्स को असंगठित या छोटे खिलाड़ियों की तुलना में स्पष्ट बहुराजिनी है, क्योंकि उनकी संस्थागत पूंजी तक पहुंच आसान है और उनके बहिष्कारों पर पारदर्शी हैं। सूचीबद्ध कंपनियों ने वडोदरा, अमृतसर, नागपुर, पानीपत, मैसूर, रायपुर और कोयंबटूर जैसे मझोले और छोटे शहरों (टियर- दो और टियर-तीन) में भी भूमि का अधिग्रहण किया। सूचीबद्ध कंपनियों में गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोहा डेवलपर्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और ब्रिगेड एंटरप्राइजेज पिछले वित्त वर्ष में आवासीय परियोजनाओं के विकास के लिए भूमि खरीदने में बहुत सक्रिय रहे। सूचीबद्ध कंपनियों धीरे-धीरे बाजार हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं की मांग उन बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों की ओर बढ़ रही है, जिनके पास परियोजनाओं को पूरा करने की वित्तीय क्षमता है।

एसईजेड यूनिट्स से डोमेस्टिक सेक्टर में आए माल का एक्सपोर्ट होने पर मिलेगा टैरिफ रिफंड

नयी दिल्ली@एजेंसी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थित इकाइयों से घरेलू क्षेत्र में शुल्क अदा कर भेजे गए माल को बाद में एक्सपोर्ट किए जाने की स्थिति में आयातित माल माना जाएगा और उस पर भी शुल्क वापसी (इयूटी ड्रॉबैक) का लाभ मिलेगा।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमा शुल्क अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि एसईजेड इकाइयों से घरेलू शुल्क क्षेत्रों (डीटीए) में शुल्क अदा कर भेजे गए माल को यदि बाद में एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 के तहत आयातित माल माना जाएगा। निर्देश में कहा गया है कि अब तक कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में अलग-अलग तरीके अपनाए जा

रहे थे। कुछ जगहों पर एसईजेड से डीटीए में भेजे गए माल को इंपोर्ट नहीं माना जा रहा था, जिसके कारण इयूटी ड्रॉबैक के दावों को अस्वीकार किया जा रहा था। इसी असमानता को दूर करने के लिए यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है। सीबीआईसी ने कहा, जहां एसईजेड इकाई से डीटीए में माल लाया शुल्कों के भुगतान के बाद भेजा गया हो और बाद में उसका पुनः एक्सपोर्ट किया जाए, उसे शुल्क रिफंड के लिहाज से आयातित माल माना जाएगा। इस कदम को शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने स्वागत योग्य और न्यायसंगत बताते हुए कहा है कि यह निर्देश विभिन्न सीमा शुल्क कार्यालयों में चल रही अलग-अलग प्रक्रियाओं को समाप्त करेगा और अनावश्यक विवादों को कम करेगा।

इंडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के खिलाफ जांच में 3,034 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की



नयी दिल्ली@एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (इंडी) ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह (आरएएजी) की कंपनियों के खिलाफ जारी धनशोधन जांच के तहत 3,034 करोड़ रुपये की नयी संपत्तियां जब्त की हैं। यह जानकारी सूत्रों ने दी। सूत्रों के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियां रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर-इंफ्रा) की हैं। सूत्रों ने बताया कि इनमें मुंबई में एक पलैट, खंडाला (महाराष्ट्र) का एक हिल स्टेशन में एक फार्महाउस, साणंद (अहमदाबाद) में कुछ भूखंड और आर-इंफ्रा के 7.71 करोड़ शेयर शामिल हैं। केंद्रीय एजेंसी ने इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी कुर्क आदेश जारी किया है। सूत्रों के अनुसार, रिलायंस अनिल अंबानी समूह के खिलाफ मामलों में कुर्क की गई संपत्तियों की कुल राशि अब 19,344 करोड़ रुपये हो गई है। समूह के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और धन के निर्धारित उद्देश्य से इतर उपयोग के आरोपों की ईडी द्वारा जांच की जा रही है।

रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का दसवां चरण 1 मई से

जयपुर@का.सं.। राईजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में इन्वेस्टर्स के साथ एमओयू होने के पश्चात् सीएम भजनलाल शर्मा ने इन्वेस्टर्स को यह विश्वास दिलाया कि ये सभी एमओयू जमीनी स्तर पर वास्तविक निवेश में परिवर्तित होंगे। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा नई पॉलिसी लागू की जा रही है तथा पुरानी नीतियों का सरलीकरण भी किया जा रहा है। इसी क्रम में रीको द्वारा मार्च-2025 में प्रत्यक्ष आवंटन योजना लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1662 भूखंडों के लिए आवंटन/ऑफर लेटर जारी किए जा चुके हैं। रीको द्वारा प्रत्यक्ष आवंटन योजना का दसवां फेज 1 मई 2026 से प्रारंभ होगा। इन्वेस्टर्स 14 मई 2026 तक ईएमडी जमा कर एंटाई कर सकेंगे। उद्यमियों की सहूलियत के लिये प्रत्यक्ष आवंटन योजना में प्रमुख बदलाव किया गया है। पूर्व में उद्यमी को योजना में भाग लेने के लिये फेज प्रारंभ होने से पंद्रह दिन पूर्व राज्य सरकार के साथ एमओयू करना होता था, परंतु अब फेज प्रारंभ होने के बाद भी इन्वेस्टर्स ईएमडी जमा कराने की अंतिम तिथि तक एमओयू करके योजना में शामिल हो सकते हैं। योजना के दसवें फेज में इन्वेस्टर्स को 103 इंडस्ट्रियल एरिया के 5500 से अधिक इंडस्ट्रियल एवं लॉजिस्टिक प्लॉट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से बड़गाँव (आबूरोड), रूंध सांखरी (अलवर), आईटी पार्क, माकड़वाली (अजमेर), बोरावास कलावा प्रथम चरण, स्पेशल पार्क (बालोतरा), फतेहपुरा-समेलिया (भीलवाड़ा), पाथरडी व सलारपुर (भिवान्डी), सेरमिक पार्क, गजनेर (बीकानेर), मंडा द्वितीय चरण, माथासुला, थोलाई, तुंगा (जयपुर), स्टोन पार्क, वाटर रिसाइकलिंग पार्क गुंडी फतेहपुर (कोटा), गणेश्वर (सीकर) और कछालिया, बूंदी (कोटा) इत्यादि औद्योगिक क्षेत्रों सम्मिलित हैं। निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए रीको ने योजना की वैधता 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है। प्रस्तावित दसवें फेज की ई-लॉटरी का आयोजन 19 मई 2026 को किया जाएगा। जिन भूखंडों के लिए केवल एक आवेदन प्राप्त होगा, उन्हें सीधे आवंटन होगा जबकि एक से अधिक आवेदन होने पर ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के नौवें फेज में 213 प्लॉट्स के लिए 327 आवेदन प्राप्त हुए थे। अब तक के नौ चरणों में 1662 प्लॉट्स आवंटित/ऑफर लेटर जारी किये जा चुके हैं जिनका क्षेत्रफल लगभग 437 हेक्टेयर तथा इन प्लॉट्स का मूल्य 2500 करोड़ रुपये से अधिक है। इन पर स्थापित होने वाली इंडस्ट्रियल यूनिटों से इकाइयों से राज्य में लगभग 18,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की संभावना है।

करणी इंडस्ट्रियल एरिया में अधोषिक्त बिजली कटौती, उद्योगों को रोजाना लाखों का नुकसान

बीकानेर@नि.सं.। करणी इंडस्ट्रियल एरिया में लगातार रही अधोषिक्त बिजली कटौती के कारण क्षेत्र के उद्योगपतियों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बिना किसी पूर्व सूचना के की जा रही इस कटौती से औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। उद्योगपतियों का कहना है कि अचानक बिजली बंद होने से मशीनों का संचालन बाधित हो जाता है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया रुक जाती है और निर्धारित समय में ऑर्डर पूरे करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा लेबर का समय भी व्यर्थ चला जाता है, जिससे श्रम लागत में अनावश्यक बढ़ोतरी हो रही है। कटौती के कारण उत्पादन लागत बढ़ने से तैयार उत्पाद महंगे पड़ रहे हैं, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना उद्योगों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। उद्योग जगत का अनुमान है कि मात्र एक घंटे की बिजली कटौती से ही लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी संबंध में डी-6 के ए.ई.एन. प्रवीण विश्वासी को करणी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष इमरान राठौड़ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इस पर विश्वासी ने समस्या के समाधान हेतु हर संभव सहयोग और शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। करणी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने संबंधित विभाग से मांग की है कि अधोषिक्त बिजली कटौती पर तत्काल रोक लगाई जाए।

एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

321, एस.ए. लोहा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सिकल के पास, उदयपुर - 313001 (राजस्थान)
 CIN: L5822RJ1981P015440, दूरभाष : 0294-2412659, ईमेल: info@srghousing.com, वेबसाइट: www.srghousing.com

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108, 110 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पढ़े गए कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं 22, तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("MCA") द्वारा समय-समय पर जारी लागू दिशा-निर्देशों/परिपत्रों (जिसमें सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई 2020 तथा नवीनतम परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर 2025 शामिल हैं) के अनुपालन में, तथा सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44, भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बंदकों पर सचिवीय मानक तथा अन्य लागू कानूनों/नियमों के अंतर्गत, निम्नलिखित विशेष कार्य एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सदस्यों द्वारा केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("रिमोट ई-वॉटिंग") से डाक मतपत्र के माध्यम से पारित किए जाने का प्रस्ताव है।

क्रम संख्या	प्रस्ताव का प्रकार	प्रस्ताव का विवरण
1	विशेष प्रस्ताव	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(C) के अंतर्गत अंतर सीमा बढ़ाने की स्वीकृति
2	विशेष प्रस्ताव	कंपनी की परिपत्तियों पर धारा 180(1)(A) के अंतर्गत भार (चार्ज) सृजित करने की स्वीकृति, जिससे धारा 180(1)(C) के अंतर्गत लिए गए/लिए जाने वाले ऋण सुरक्षित किए जा सकें।

कंपनी द्वारा यह सूचना सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को उन सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेजी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी या उसके रजिस्ट्रार ऑफ़ शेयर ट्रस्टिकर एंटर (RTA) या डिपॉजिटरी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं तथा जिनके नाम शुरुवार, 17 अप्रैल 2026 (कट-ऑफ तिथि) तक सदस्य रजिस्ट्रार या लाभकारी स्वामित्वों की सूची में दर्ज हैं। जो व्यक्ति/कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं हैं, वे इस सूचना को केवल जानकारी हेतु मानें। इस सूचना की प्रतिलिपि प्रेषित, डाक मतपत्र प्रेषण एवं प्रि-पेड लिफाफे सदस्यों को नहीं भेजे जा रहे हैं। अतः मतदान को मात्र सदस्य केवल रिमोट ई-वॉटिंग के माध्यम से ही अपनी सहमति या असहमति व्यक्त कर सकेंगे।

कंपनी ने रिमोट ई-वॉटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की सेवाएँ ली हैं।

रिमोट ई-वॉटिंग आधारी:

प्रारंभ: बुधवार, 29 अप्रैल 2026, प्रातः 9:00 बजे (IST)
 समाप्ति: गुरुवार, 28 मई 2026, सायं 5:00 बजे (IST)

निष्पत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न की अनुमति नहीं होगी। एक बार डाला गया मत बदला नहीं जा सकता और उन्नी प्रस्ताव पर पुनः मतदान की अनुमति नहीं होगी।

सूचना एवं व्याख्यात्मक विवरण में उल्लिखित सभी संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज, इस सूचना के प्रसारण की तिथि से लेकर रिमोट ई-वॉटिंग की अंतिम तिथि अर्थात् गुरुवार, 28 मई 2026 तक, सदस्यों के लिए बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे। सदस्य अपने पंजीकृत ईमेल पते से compliance@srghousing.com पर अपना नाम तथा पोलियो नंबर @DP ID एवं क्लाइंट ID उल्लेख करते हुए अनुप्रेषण भेजकर इन दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं।

यह सूचना एवं ई-वॉटिंग निर्देश कंपनी की वेबसाइट (www.srghousing.com), बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (www.nseindia.com) तथा NSDL (https://www.evoting.nsdl.com) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नाम, पता, ईमेल, मोबाइल नंबर, PAN, बैंक विवरण आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना दें:

- डीमैट शेयर हेतु: अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को
- भौतिक शेयर हेतु: कंपनी या RTA को (पोलियो नंबर, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन कॉपी, PAN, आधार आदि के साथ)

कंपनी के निदेशक मंडल में श्री शिव हरि जालान, प्रिवेटसिंग कंपनी सेक्रेटरी, को डाक मतपत्र प्रक्रिया की रिमोट ई-वॉटिंग के माध्यम से निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से जांच (स्कूटिंग) करने हेतु स्कूटिंगाउजर के रूप में नियुक्त किया है। स्कूटिंगाउजर ने इन डाक मतपत्र के लिए स्कूटिंगाउजर के रूप में कार्य करने की सहमति प्रदान की है। डाक मतपत्र की वैधता, डाक मतपत्र की प्रक्रिया तथा परिणामों की घोषणा के संबंध में स्कूटिंगाउजर का निर्णय कंपनी और सदस्यों पर बाध्यकारी होगा।

लिमिटेड विनियमों के विनियम 44 (3) के अनुसार, डाक मतपत्र का परिणाम, निरीक्षण (Scrutinizer) की रिपोर्ट सहित, कंपनी की वेबसाइट (www.srghousing.com) तथा NSDL की वेबसाइट (https://www.evoting.nsdl.com) पर प्रदर्शित किया जाएगा और कंपनी के फिन स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात् बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) को ई-वॉटिंग अर्थात् समाप्त होने के 2 (दो) कार्य दिवसों के भीतर सूचित किया जाएगा।

ई-वॉटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न में (www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध FAQ देखें या 022-48867000 पर संपर्क करें या evoting@nsdl.com पर ईमेल करें। आप कंपनी सचिव श्रीमती दिव्या कोठारी से भी संपर्क कर सकते हैं। (फोन: 0294-2561882, ईमेल: info@srghousing.com) NSDL का पता: तीसरी मंजिल, नमन चेंबर, प्लॉट C-32, जी-ब्लॉक, बंगला कुरुको कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा पूर्व, मुंबई- 400051 पर ईमेल करें।

एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए
 Sd/-
 दिव्या कोठारी, कंपनी सचिव
 दिनांक: 27.04.2026
 सदस्य संख्या: A57307